

अध्याय - 4 | व्यावसायिक सेवाएँ

QUIZ
PART-15

1. अटल पेंशन योजना किनकी आयु के लोगों के लिए है?

- A. 18-50 वर्ष
B. 18-40 वर्ष
C. 21-60 वर्ष
D. 20-55 वर्ष (B)

व्याख्या: यह योजना 18-40 वर्ष आयु के नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

2. अटल पेंशन योजना में अंशदान कब तक करना होता है?

- A. 55 वर्ष तक
B. 60 वर्ष तक
C. 50 वर्ष तक
D. 65 वर्ष तक (B)

व्याख्या: व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु तक अंशदान करना आवश्यक है।

3. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में वार्षिक प्रीमियम कितना है?

- A. ₹50
B. ₹100
C. ₹20
D. ₹436 (C)

व्याख्या: इस योजना का प्रीमियम केवल ₹20 प्रति वर्ष है।

4. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना बीमा कवर कितना है?

- A. ₹50,000
B. ₹1 लाख
C. ₹30,000
D. ₹2 लाख (D)

व्याख्या: इस योजना में ₹2,00,000 का दुर्घटना एवं विकलांगता कवर दिया जाता है।

5. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के लिए किसका होना अनिवार्य है?

- A. जनधन खाता
B. चालू खाता
C. बचत खाता
D. फिक्ड डिपॉजिट खाता (C)

व्याख्या: कोई भी बचत खाता धारक व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है।

6. प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत कौन-सा कार्ड मिलता है?

- A. वीज़ा डेबिट कार्ड
B. मास्टरकार्ड
C. रुपये एटीएम-डेबिट कार्ड
D. क्रेडिट कार्ड (C)

व्याख्या: इस योजना के तहत रुपये एटीएम-डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है।

7. जन-धन योजना में दुर्घटना बीमा कवर कितना है?

- A. ₹30,000
B. ₹1 लाख
C. ₹2 लाख
D. ₹50,000 (B)

व्याख्या: जन-धन खाते पर ₹1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है।

8. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम कितना है?

- A. ₹20 प्रति वर्ष
B. ₹50 प्रति वर्ष
C. ₹436 प्रति वर्ष
D. ₹500 प्रति वर्ष (C)

व्याख्या: इस योजना का प्रीमियम ₹436 प्रति वर्ष है।

9. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा राशि कितनी है?

- A. ₹50,000
B. ₹1 लाख
C. ₹2 लाख
D. ₹2.5 लाख (C)

व्याख्या: मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को ₹2,00,000 का बीमा लाभ मिलता है।

10. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल होने की आयु सीमा क्या है?

- A. 18-40 वर्ष
B. 18-50 वर्ष
C. 20-60 वर्ष
D. 25-55 वर्ष (B)

व्याख्या: 18 से 50 वर्ष आयु के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं।